



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 8, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 85 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 74 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य निम्न स्तर का होने,
 - (2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की जिला सागर के अस्पताल में एम्बुलेंस खराब होने से समस्या होने,
 - (3) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की पिपरिया क्षेत्र के ग्रामों की भूमि वन विकास के अंतर्गत आने से नामान्तरण पर रोक लगाने,
 - (4) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले में विद्युत मंडल द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने,
 - (5) श्री वीर सिंह भूरिया, सदस्य की रायसेन के बाड़ी निवासी व्यक्ति की भूमि के भू-अर्जन की कार्यवाही निरस्त न की जाने,
 - (6) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के पत्थर खदानों की रायल्टी रसीद न दी जाने,
 - (7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम में विद्युत लाईनें टूटी होने,
 - (8) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन का मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने,
 - (9) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की भोपाल के गीतान्जली कन्या महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने तथा
 - (10) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की बीना विधान सभा क्षेत्र की शालाओं में शौचालय की व्यवस्था न होने
- संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय विश्रोई, पशुपालन मंत्री ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

4. ध्यान आकर्षण

- (1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के वीरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नसबंदी आपरेशन के दौरान दो महिलाओं की मौत होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।
- (2) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में रख-रखाव के अभाव में सड़कों की जर्जर स्थिति होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

- (1) श्री ठाकुरदास नागवंशी (जिला-होशंगाबाद)
- (2) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
- (3) श्री पुरुषोत्तम दांगी (जिला-राजगढ़)
- (4) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम)
- (5) श्री कमलेश जाटव, (जिला-मुरैना)
- (6) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी (जिला-सागर)
- (7) श्रीमती गीता उइके (जिला-बैतूल)

6. वित्त मंत्री का प्रश्न के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने दिनांक 23 जुलाई 2012 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 2070) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक पर 26 फरवरी, 2013 को प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा के क्रम में, निम्नलिखित सदस्यगण ने भी भाग लिया :-

- (2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
- (3) श्री मनीराम धाकड़
- (4) श्री मानवेन्द्र सिंह
- (5) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
- (6) श्री ओमप्रकाश सकलेचा

(अपराह्न 1.00 से 2.39 बजे तक अन्तराल)

- (7) श्री बिसाहूलाल सिंह
- (8) श्री ताराचंद बावरिया
- (9) श्री यादवेन्द्र सिंह
- (10) श्री पारस सकलेचा
- (11) श्री राजेन्द्र वर्मा
- (12) श्री हेमराज कल्पोनी
- (13) श्रीमती नीता पटैरिया
- (14) श्री भगवान सिंह राजपूत
- (15) राव देशराज सिंह यादव
- (16) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(चर्चा जारी)

अपराह्न 4.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 9, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल :
दिनांक : 27 फरवरी, 2013

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा